



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्रतिभार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 6]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 10, 1983/पौष 20, 1904

नं० 6]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 10, 1983/PAUS 20, 1904

इस भाग में हिम पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 1983

सं० प्रतिप्रदायगी/सां० सू० 2/83

सार्वजनिक सूचना

फा० सं० 600/2726-2727/82-प्र० आ०:-सीमा शुल्क तथा
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रति अदायगी नियमावली, 1971 (भारत के
राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना
सं० 52/फा० सं० 602/2/70-प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय
सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिप्रदायगी/सां० सू० 1, दिनांक 15
अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित मारपी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन
शरती है :-

(1) वर्तमान "सामान्य टिप्पणी 8" "8(1)" के रूप में पुनः
संशोधित होगी।

(2) इस तरह संशोधित "सामान्य टिप्पणी 8(1)" के बाद निम्न-
लिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

"8(11). सिलीसलाई पोषाकों में संबंधित उपक्रमांक 2726, 2727,
2728, 2729, 2731 और 2737 के बारे में नियतकर्ता को भी
आवातित है। पर सीमाशुल्क का अदायगी की जायगी :-

अर्थात् कि नियतकर्ता महाशय सीमाशुल्क समाहर्ता के समाधानप्रद
रूप में इस बात का साक्ष्य प्रस्तुत करे कि उसने पोषाको के साथ नियत

किए जाने वाले प्रत्येक हैंगर का शुल्क अदा करके सीधे ही आयात किया
है और उक्त हैंगरों का आयात/निकासी पोतलादान-बिल को तारीख में
तत्काल पूर्ण छ. माह के भीतर बंध-पत्र मुक्त की गई है ; परन्तु यह भी
कि उक्त सीधे आयात को

(1) किसी अन्य पूर्ववर्ती आयात के प्रति इस तरह सह-सम्बन्ध नहीं
किया हो तथा हिमाव में नहीं लिया गया हो, और

(2) इस तरह पहले अथवा किसी भी रूप में प्रति अदायगी के दावे
महित अथवा उसके बिना पुनर्निर्यात नहीं किया गया हो।

(3) उप क्रमांक 2726, 2727, 2728, 2729 और 2737 के
सामने "प्रतिप्रदायगी की दर" स्तर में निम्नलिखित की अंत
में जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

अथवा.

आयातित हैंगरों के सम्बन्ध में उक्त हैंगरों पर प्रदत्त शुल्क की
वास्तविक रकम के बराबर प्रतिप्रदायगी की अदायगी अनुसूची
की "सामान्य टिप्पणी 8(II) में निर्दिष्ट तरीके से की
जाएगी।"

(4) उपक्रमांक 2731 के सामने "प्रतिप्रदायगी की दर" स्तर में
वर्तमान प्रविष्टि (i) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायगा,
अर्थात् :-

"(I) ऐसी सामग्री, जिससे हैंगरों का निर्माण किया गया हो, के
संबंध में इस अनुसूची में यथा-निर्दिष्ट समुचित दर पर
प्रतिप्रदायगी।

अध्याय

आयातित हैंगरों के संबंध में ऐसे हैंगरों पर प्रत्यक्ष शुल्क को वास्तविक शुल्क के बराबर प्रतिप्रदायणी की प्रदायणी अनुसूची की "सामान्य डिप्लोमा 8 (II) में निविष्ट नरीके से की जाएगी।" यह सार्वजनिक सूचना पहली जून, 1982 को प्रवृत्त हुई समझे जायगी।

जे० एस० आर० खाथिंग, अध्याय सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 10th January, 1983

NO. DRAWBACK/PN-2/83

PUBLIC NOTICE

F. No. 600/2726-2727/82-DBK.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India-Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971 :—

(1) The existing GENERAL NOTE 8 shall be renumbered as '8(I)'.

(2) After the GENERAL NOTE 8(I), so amended, the following shall be added, namely :—

"8(II). In respect of sub-serial Nos. 2726, 2727, 2728; 2729, 2731 and 2737 relating to readymade garments the exporter shall also be paid the duty of customs on imported hangers—

Provided the exporter produces evidence to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs of direct duty paid importation per piece of hangers exported along with the garments and said

hangers has been imported/cleared exbond within six months immediately preceeding the date of Shipping Bill;

Provided further that such direct import has not been—

(i) similarly correlated and accounted for against any other previous exportation; and

(ii) previously re-exported as such, or in any other form with or without a claim for drawback.

(3) In the column 'Rate of drawback' against sub-serial Nos. 2726, 2727, 2728, 2729 and 2737, the following shall be added at the end, namely :—

OR

In case of imported hangers drawback equivalent to the actual amount of duties paid on such hangers, shall be paid in the manner laid down in GENERAL NOTE 8(II) of the Schedule."

(4). In the column 'Rate of drawback' against sub-serial No. 2731 for the existing entry (i) the following shall be substituted, namely :—

"(i) Drawback at the appropriate rate as specified in this schedule in respect of materials from which hangers have been made.

OR

In case of imported hangers drawback equivalent to the actual amount of duties paid on such hangers, shall be paid in the manner laid down in GENERAL NOTE 8(II) of the Schedule".

This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 1st day of June, 1982.

J. S. R. KHATHING, Under Secy.